



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 वैशाख 1941 (श0)
(सं0 पटना 589) पटना, वृहस्पतिवार, 2 मई 2019

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

30 अप्रील 2019








सं0 एम-1-010/2019-38— लोक सभा का आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के आलोक में 1-वाल्मीकिनगर, 2-पश्चिम चम्पारण, 3-पूर्वी चम्पारण, 4-शिवहर, 16-वैशाली, 17-गोपालगंज (अ0जा0), 18-सिवान एवं 19-महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्ररूप 7'क' सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रवीण कुमार गुप्ता,
संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

प्ररूप 7 क
(नियम 10(1) देखिए)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

01-वाल्मीकिनगर निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी					
1	दीपक यादव		तिरुपति सुगर्स लिमिटेड बगहा कालोनी, वार्ड-11, पोस्ट-नरईपुर बगहा (पटखौली पश्चिम चम्पारण।	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
2	बैद्यनाथ प्रसाद महतो		ग्राम-पकड़िया, पो0-मझरिया किशुन, नौतन, जिला-पश्चिम चम्पारण।	जनता दल (यूनायटेड)	तीर
3	शाश्वत केदार		ग्राम+पोस्ट-तौलाहा, थाना-रामनगर, जिला-पश्चिम चम्पारण	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ
(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)					
4	दुर्गेश सिंह चौहान		ग्राम+पोस्ट-पिपरिया, थाना-बगहा, जिला-पश्चिम चम्पारण।	बिहार लोक निर्माण दल	बक्सा
5	भोला राय		सेमरा, थाना-सेमरा, जिला-पश्चिम चम्पारण।	सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी	छड़ी
6	मनोज कुमार		पता-नारा परसौनी, थाना-भैरोगंज, जिला-पश्चिम चम्पारण।	जनहित किसान पार्टी	ट्रैक्टर चलाता किसान
7	राकेश केवट		ग्राम-नरईपुर, पोस्ट-नरईपुर, थाना-बगहा, जिला-पश्चिम चम्पारण।	राष्ट्रीय हिन्द सेना	हैलीकॉप्टर

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवृत्ति प्रतीक
1	2	3	4	5	6
8	राजेश कुशवाहा		ग्राम-संतपट्टी खैरा टोला, पोस्ट-खैरा टोला, थाना-भितहौ, जिला- पश्चिम चम्पारण ।	राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी	गुब्बारा
9	शिव कुमार चौधरी		ग्राम+पोस्ट-पिपरिया, थाना-बगहा, जिला- पश्चिम चम्पारण ।	भारतीय बहु जन कॉंग्रेस	मोतियों का हार
10	सुषमा देवी		ग्राम-बड़गाँव, पोस्ट-बड़गाँव, थाना-बगहा, जिला- पश्चिम चम्पारण ।	शिवसेना	फूलगोभी
(iii) अन्य अभ्यर्थी					
11	मुन्ना सिंह		ग्राम-सेरहवा, पोस्ट-मुरली, थाना-शिकारपुर, जिला- पश्चिम चम्पारण, पिन कोड-845103	निर्दलीय	चाबी
12	रमेश प्रसाद		ग्राम-अहिरवलिया, पो0-खरपोखरा, थाना-बगहा, जिला-पश्चिम चम्पारण ।	निर्दलीय	फुटबॉल
13	सुरेश साह		ग्राम+पोस्ट-जोगिया, थाना-रामनगर, जिला- पश्चिम चम्पारण ।	निर्दलीय	एअरकंडीस्नर

स्थान: बेतिया

तारीख: 26.04.2019









(ह०) अस्पष्ट,
निर्वाची पदाधिकारी,
01-वाल्मीकिनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ।

FORM 7 A

[See rule 10 (I)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

**Election to the House of the People/Legislative Assembly from the
01-Valmikinagar Parliamentary Constituency.**

Sl No.	Name of Candidate	Candidate Photograph	Address of candidate	Party affiliation	Symbol Alloted
1	2	3	4	5	6
(i) Candidates of recognized National and State Political Parties.					
1	Deepak Yadav		Tirupati Sugars LTD., Colony, Ward-11, Post- Naraipur Bagaha (Patkholi)-845105, West Champaran, Bihar	Bahujan Samaj Party	Elephant
2	Baidyanath Prasad Mahto		VIII-Pakadiya, PO- Majhria Kishun, Nautan, Dist-West Champaran. (Bihar) Pin No. 845459	Janata Dal (United)	Arrow
3	Shashwat Kedar		VIII+Post-Taulaha, P.S.- Ramnagar, Dist-West Champaran.	Indian National Congress	Hand
(ii) Candidates of registered political parties (other than recognised National and State Political Parties)					
4	Durgesh Singh Chauhan		VIII+Post-Pipariya, P.S.-Bagaha, Dist-West Champaran.	Bihar Lok Nirman Dal	Box
5	Bhola Ray		Semra, P.S.-Semra, Dist-West Champaran.	Suheldev Bharatiya Samaj Party	Walking Stick
6	Manoj Kumar		Nara Parsauni, P.S.- Bhairganj, Dist-West Champaran.	Janhit Kisan Party	Tractor Chalata Kisan
7	Rakesh Kewat		VIII-Naraipur, Post- Naraipur, P.S.-Bagaha, Dist-West Champaran.	Rashtriya Hind Sena	Helicopter
8	Rajesh Kushwaha		VIII-Santpatti, Khaira Tola, Post- Khaira Tola, P.S.- Bhitaha, Dist- West Champaran.	Rashtriya Sarvjan Vikas Party	Balloon

Sl No.	Name of Candidate	Candidate Photograph	Address of candidate	Party affiliation	Symbol Alloted
1	2	3	4	5	6
9	Shiv Kumar Chaudhary		Vill+Post-Pipariya, P.S.-Bagaha, Dist-West Champaran.	Bharatiya Bahujan Congress	Bead Necklace
10	Sushma Devi		At-Bargaon, PO- Bargaon, P.S.-Bagaha, Dist-West Champaran.	Shiv Sena	Cauliflower
(iii) Other candidates.					
11	Munna Singh		Vill-Serhawa, Post-Murli, Thana-Shikarpur, Dist-West Champaran, Pin code-845103	Independent	Key
12	Ramesh Prasad		Vill-Ahirwalia, Post-Kharpokhra, P.S.-Bagaha, Dist- West Champaran	Independent	Football
13	Suresh Sah		Vill+Post-Jogia, P.S.-Ramnagar, Dist-West Champaran.	Independent	Airconditioner

Place: Bettiah
Date: 26.04.2019

Sd/-Illegible,
Returning Officer.
01-Valmikinagar Parliamentary Constituency.




प्ररूप 7क

नियम 10 (1) देखिए

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

02-पश्चिम चम्पारण निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी					
1	बृजेश कुमार कुशवाहा		चौरिया टोला, धुमनगर, थाना-जगदीशपुर, नौतन, जिला-पश्चिम चम्पारण	राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	छत का पंखा
2	राकेश कुमार		हरिवाटिका पोखरा बेतिया, पो0 बेतिया, जिला- पश्चिम चम्पारण	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
3	डा0 संजय जायसवाल		अस्पताल रोड, बेतिया, जिला-पश्चिम चम्पारण	भारतीय जनता पार्टी	कमल
(ii) रजिष्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)					
4	विपिन नाथ तिवारी उर्फ विपिन तिवारी		ग्रा0-बरवाचाप, पो0-जैतिया, थाना- चनपटिया, जिला- पश्चिम चम्पारण (बिहार)	लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी	कैरम बोर्ड
(iii) अन्य अभ्यर्थी					
5	अजय कुमार सिन्हा		भवानीपुर जिरात, थाना- छतौनी, पो0- मोतिहारी, जिला-पूर्वी चम्पारण	निर्दलीय	अनानास
6	नफिस अहमद		सा0-नोनियार टोली, वार्ड सं0 07, बेतिया, जिला- पश्चिम चम्पारण	निर्दलीय	हैलीकॉप्टर

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
7	रतन कुमार सरकार		ग्राम- बैरिया कॉलोनी, अंचल+पो0+थाना- बैरिया, जिला- पश्चिम चम्पारण	निर्दलीय	डीजल पम्प
8	विकाश कुमार प्रसाद		धुमनगर (बड़ोहिया टोला) पो0 कचहरी टोला, धुमनगर, थाना- नौतन, जिला-पश्चिम चम्पारण	निर्दलीय	ट्रक
9	संजय कुमार पटेल		बरवत प्रसराइन, थाना- मुफस्सिल बेतिया, जिला-पश्चिम चम्पारण	निर्दलीय	फूलगोभी

स्थान- बेतिया।

तारीख:- 26.04.2019

(ह०) अस्पष्ट,
निर्वाची पदाधिकारी,
02-पश्चिम चम्पारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।




FORM 7 A

[See rule 10 (1)]

List of Contesting Candidates

Election to the House of the People/legislative Assembly from the
02-Paschim Champaran Parliamentary Constituency.

S.N.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
(i) Candidates of recognised National and State Political Parties					
1	Brijesh Kumar Kushwaha		Chawariya Tola, Dhumnagar, P.S. Jagdishpur Nautan, District-West Champaran	Rashtriya Lok Samta Party	Ceiling Fan
2	Rakesh Kumar		Hariwatika Pokhra Bettiah, Post-Bettiah, District-West Champaran	Bahujan Samaj Party	Elephant
3	Dr. Sanjay Jaiswal		Hospital Road, Bettiah, District-West Champaran	Bharatiya Janata Party	Lotus
(ii) Candidates of registered political parties (Other than recognised National and State Political Parties)					
4	Bipin Nath Tiwari Alias Bipin Tiwari		At. Barwachap, Po.- Jaitiya, P.S.- Chanpatia, District-West Champaran	Loktantrik Jan Swaraj Party	Carrom Board
(iii) Other candidates.					
5	Ajay Kumar Sinha		Bhawanipur Jirat Motihari, Post-Motihari, P.S. Chhatauni, District - East Champaran	Independent	Pineapple
6	Nafish Ahmad		At- Noniyar Toli, Ward No. 7, Bettiah, District- West Champaran	Independent	Helicopter

S.N.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
7	Ratan Kumar Sarkar		Bairiya Colony, Anchal+Po.+P.S.- Bairiya, District- West Champaran	Independent	Diesel Pump
8	Vikas Kumar Prasad		Dhumnagar (Barohiya Tola) Post- Kachahri Tola Dhumnagar, P.S. Nautan, District- West Champaran	Independent	Truck
9	Sanjay Kumar Patel		Barwat Prasarayin, Ps. Mufassil Bettiah, District- West Champaran	Independent	Cauliflower

Place- Bettiah

Date -26.04.2019

Sd/-Illegible,
Returning Officer,
02-Paschim Champaran Parliamentary Constituency.

प्ररूप 7क

(नियम 10(1) देखिए)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

03-पूर्वी चम्पारण से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
(I) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी					
1	आकाश कुमार सिंह		ग्राम-कोयल भुपत थाना- मेहंदिया, जिला-अरवल (बिहार)	राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	छत का पंखा
2	प्रभाकर जयसवाल		मु0-छतौनी, पो0-मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण।	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	बाल और हँसिया
3	राधा मोहन सिंह		ग्राम+पोस्ट- नरहा पानापुर, थाना-राजेपुर, जिला-पूर्वी चम्पारण वर्तमान पता- मुहल्ला-राजेन्द्र नगर, मोतिहारी, पो0-मोतिहारी, पिन कोड-845401 पूर्वी चम्पारण।	भारतीय जनता पार्टी	कमल
(II) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)					
4	दिनेश सहनी		ग्राम+पो0+थाना- बरौली जिला-गोपालगंज राज्य बिहार पिनकोड-841405	राष्ट्रीय महान गणतन्त्र पार्टी	आदमी व पाल युक्त नौका
5	देवेन्द्र सिंह		ग्राम-सरिसवा पो0-मुरारपुर थाना-हरसिद्धि जिला-पूर्वी चम्पारण पिन-845437	राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी	गुब्बारा
6	पारस नाथ पाण्डेय		ग्राम-महमदा, पो0-बथना थाना-पीपराकोठी, जिला-पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट)	मोतियों का हार

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
7	पारसनाथ राम		ग्राम—कुंअरपुर, पो0— परशुरामपुर भाया—दामोदरपुर, जिला— पूर्वी चम्पारण	जनता पार्टी	ट्रैक्टर चलाता किसान
8	रणधीर कुमार तिवारी		ग्राम—जलहॉ पो0—मंगलापुर थाना—संग्रामपुर जिला—पूर्वी चम्पारण	असली देशी पार्टी	बोतल
9	राजीव रंजन		ग्राम—उज्जैन टोला पो0—बेतिया जिला—पश्चिमी चम्पारण पिन—845438	जनता दल राष्ट्रवादी	डोली
10	रामचन्द्र साह		ग्राम—तुरकौलिया टोला—कवलपुर पोस्ट—तुरकौलिया जिला— पूर्वी चम्पारण	राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी	फूलगोभी
11	विनय कुमार श्रीवास्तव		ग्राम—रधुनाथपुर, पो0—मोतिहारी, थाना—तुरकौलिया, जिला—पूर्वी चम्पारण पिन—845401	राष्ट्रीय समता पार्टी (सेकुलर)	ट्रक
12	शत्रुघ्न तिवारी		शहर —बी0 बी0 गंज अंचल—मुसहरी थाना—सदर जिला—मुजफ्फरपुर पिन—842001	बज्जिकांचल विकास पार्टी	अंगूर
13	शेख सेराज		ग्राम+पो0—भोपतपुर थाना—कोटवा जिला—पूर्वी चम्पारण पिन कोड—845432	अखिल भारतीय अपना दल	कैची
14	शोभा देवी		ग्राम+पो0—ताजपुर पटखौलिया थाना—केसरिया जिला—पूर्वी चम्पारण पिन—845424	शोषित समाज दल	आरी
15	सचिन पासवान		ग्राम+पो0—सिरहॉ थाना—पकडीदयाल जिला—पूर्वी चम्पारण	राष्ट्रीय हिन्द सेना	हैलीकॉप्टर

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
16	सत्यम यादव		ग्राम—जमुनापुर पो0—सिसवा पटना भाया—राजपुर जिला— पूर्वी चम्पारण	बहु जन न्याय दल	गन्ना किसान
(iii) अन्य अभ्यर्थी					
17	मो० अजमेर आलम		ग्राम—मंगलापुर पोस्ट+थाना —कल्याणपुर जिला—पूर्वी चम्पारण पिन कोड—845413	निर्दलीय	कम्प्यूटर
18	अनिकेत रंजन		ग्राम—विशुनपुरा पो0—दामोदरपुर थाना—पीपरा जिला—पूर्वी चम्पारण	निर्दलीय	ऑटो—रिक्शा
19	प्रदीप सिंह		ग्रा0+पो0—परसौना थाना—संग्रामपुर जिला—पूर्वी चम्पारण पिन—845417	निर्दलीय	सितार
20	मनोज तिवारी		ग्राम—पंडितपुर पो0+थाना—पीपराकोठी जिला—पूर्वी चम्पारण पिन कोड—845429	निर्दलीय	बल्ला
21	मुनेश्वर तिवारी		ग्राम+पो0—गवन्द्रा, थाना—चकिया, जिला—पूर्वी चम्पारण।	निर्दलीय	टी.वी. रिमोट
22	शक्ति कुमार		ग्राम—गोढ़वा पो0—पतौरा थाना—मुफसिल जिला— पूर्वी चम्पारण	निर्दलीय	फ्राक

स्थान : मोतिहारी

तारीख : 26.04.2019

(ह०) अस्पष्ट,
रिटर्निंग ऑफिसर
03—पूर्वी चम्पारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।








FORM 7 A








[See rule 10 (1)]



List of Contesting Candidates

Election to the House of the people from 03-Purvi Champaran Parliamentary Constituency.

S. N.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
(i) Candidates of recognised National and State Political Parties.					
1	Aakash Kumar Singh		Village-Koyal Bhupat PS-Mehandiya Distt-Arwal, (Bihar)	Rashtriya Lok Samta Party	Ceiling Fan
2	Prabhakar Jaiswal		Mohalla- Chhatauni, P.O- Motihari East champaran	Communist Party of India	Ears of Corn and Sickle
3	Radha Mohan Singh		Vill+PO- Naraha panapur P.S- Rajepur Distt-East Champaran Present Add.- Mohalla-Rajendra Nagar, PO-Motihari Pin-845401 East Champaran	Bharatiya Janata Party	Lotus
(ii) Candidates of registered political parties (other than recognised National and State Political Parties)					
4	Dinesh Sahani		Village+P.O+ P.S - Barauli Distt-Gopalgang, State-Bihar pin-841405	Rashtriya mahan Gantantra Party	Boat with Man and Sail
5	Devendra Singh		Village- Sariswa, Po- Murarpur P.S-Harsidhi Distt-East Champaran Pin Code-845437	Rashtriya Sarvjan Vikas Party	Balloon

S. N.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
6	Parasnath Pandey		Village- Mahmada, Po- Bathna Ps-Piprakothe Distt-East Champaran Motihari	Janvadi Party (Socialist)	Bead Necklace
7	Parasnath Ram		Vill.- Kunwarpur P.O- Parshurampur Via-Damodarpur Distt-East Champran	Janata Party	Tractor chalata kisan
8	Randhir Kumar Tiwari		Village- Jalahan P.O-Manglapur P.S- Sangrampur Distt-East Champaran	Asli Deshi Party	Bottle
9	Rajiv Ranjan		Village- Ujjain Tola, Po- Bettiah Distt-West Champran Pin Code-845438	Janta Dal Rashtravadi	Dolli
10	Ramchandra Sah		Village- Turkauliya Tola-Kawalpur P.O- Turkauliya,Distt- East Champaran	Rashtriya Jansambhavna Party	Cauliflower
11	Vinay Kumar Sriwastava		Village- Raghunathpur P.O- Motihari P.S- Turkauliya Distt-East Champran Pin-845401	Rashtriya Samta Party (Secular)	Truck
12	Shatrughna Tiwari		Town- B.B. Ganj, Anchal-Mushari PO-Muzaffarpur PS- Sadar Distt- Muzaffarpur Pin code-842001	Bajjikanchal Vikas Party	Grapes

S. N.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
13	Shekh Seraj		Village +Post- Bhopatpur P.S- Kotwa Distt-East Champaran Pin-845432	Akhil Bhartiya Apna Dal	Scissors
14	Shobha Devi		Village+P.O- Tajpur Patkhauliya P.S-Kesaria Distt-East Champaran pin-845424	Shoshit Samaj Dal	Saw
15	Sachin Paswan		Vill+P.O- Sirahan P.S-Pakridayal Distt- East Champran	Rashtriya Hind Sena	Helicopter
16	Satyam Yadav		Village- Jamunapur, Po- Siswa Patna Via-RajepurDistt-East Champaran	Bahujan Nyay Dal	Ganna kisan
(iii) Other Candidates.					
17	Md. Ajmer Alam		Village – Manglapur Post+P.S- Kalyanpur Distt-East Champaran Pin-845413	Independent	Computer
18	Aniket Ranjan		Village- Bisunpura P.O-Damodarpur P.S- Pipra Distt-East Champaran	Independent	Auto- Rickshaw
19	Pradeep Singh		Vill+P.O- Parsauna P.S- Sangrampur Distt- East Champran Pin-845417	Independent	Sitar

S. N.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
20	Manoj Tiwari		Village Panditpur P.O+P.S- Piprakothi Distt-East Champaran Pin-845429	Independent	Bat
21	Muneshwar Tiwari		Village+P.O- Gavandra,P.S-Chakia Distt-East Champran	Independent	T.V. Remote
22	Shakti Kumar		Village- Godhwa, P.O- Pataura Ps-Muffasil, Distt- East Champaran	Independent	Frock

Place- Motihari
Date – 26-04-2019




Sd/-Illegible,
Returning Officer,
03-Purvi Champaran Parliamentary Constituency.

प्ररूप 7क

[नियम 10 (1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

04-शिवहर लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी					
1	मुकेश कुमार झा		ग्राम-खैरा पहाड़ी, पो0-दोस्तरियाँ, थाना-पुरनहिया, जिला-शिवहर	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
2	रमा देवी		ब्रह्मपुरा, कृष्णाटोला, एम0आई0टी0, थाना-ब्रह्मपुरा, जिला-मुजफ्फरपुर	भारतीय जनता पार्टी	कमल
3	शमीम आलम		ग्राम-रामपुर खास, पो0+थाना- हिरम्मा, जिला-शिवहर	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी	घड़ी
4	सैयद फैसल अली		न्यू पाटलीपुत्रा, मस्जिद रोड, पो0-पाटलीपुत्र, पटना	राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन
(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)					
5	अनिल कुमार		ग्राम- भलही, पो0+थाना- बथनाहा, जिला-सीतामढ़ी	जन अधिकार पार्टी	डोली
6	आनन्द कुमार मौर्य		ग्राम-करमहिया, पो0-पड़री, तहसील-हाटा, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश	बहुजन आजाद पार्टी	स्लेट
7	उपेन्द्र सहनी		ग्राम-पकरी, पो0-रेवासी, थाना-रीगा, जिला-सीतामढ़ी, पिन कोड-843327	राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी	फूलगोभी

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
8	जगदीश प्रसाद		ग्राम+पो0- सर्वगिया, थाना-मधुबन, जिला-पूर्वी चम्पारण, पिन-845412	बज्जिकांचल विकास पार्टी	अंगूर
9	देवेन्द्र प्रसाद सिंह		ओम ब्रह्म जानकी भवन, ग्राम-मुसहरिया, पो0+थाना-कुण्डवा चैनपुर, जिला-पूर्वी चम्पारण पिन- 845304	ऑल इण्डिया फॉरवर्ड ब्लॉक	शेर
10	नबी हुसैन		ग्राम+पो0- जलालपुर, थाना-मुसहरी, जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार, पिन-843119	भारत प्रभात पार्टी	लूडो
11	प्रभु नारायण		ग्राम-भगवानपुर कोटवा, पो0+थाना-धोड़ासहन, जिला-पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।	शिवसेना	एअरकंडीस्नर
12	श्याम कुमार		ग्राम-दरगावाँ, पो0-मेहसी, थाना-मेहसी, जिला-पूर्वी चम्पारण	राष्ट्रीय हिन्द सेना	हैलीकॉप्टर
(iii) अन्य अभ्यर्थी					
13	अनिल कुमार तिवारी		ग्राम+पो0-दुलमा, थाना-मधुबन, जिला-पूर्वी चम्पारण, पिन-845414	निर्दलीय	चिमनी
14	अबूल कलाम खाँ		ग्राम-तुर्की खरारू, पो0+थाना- मीनापुर, जिला- मुजफ्फरपुर	निर्दलीय	चारपाई

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
15	केदारनाथ प्रसाद		रामभजन बाजार, गोला रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार-842001	निर्दलीय	गन्ना किसान
16	राज कुमार प्रसाद		ग्राम-ढाका चैनपुर, थाना-ढाका, पोस्ट-ढाका, जिला-पूर्वी चम्पारण	निर्दलीय	मेज
17	रामदयाल प्रसाद		ग्राम-सरसौला खूर्द, पो0+थाना- शिवहर, जिला-शिवहर	निर्दलीय	अलमारी
18	विजय नन्दन पासवान		ग्राम-मलकौनिया, पो0-पचपकड़ी बाजार, थाना-ढाका, जिला-पूर्वी चम्पारण	निर्दलीय	मोतियों का हार

स्थान : मोतिहारी

तारीख : 26.04.2019

(ह०) अस्पष्ट,
रिटर्निंग ऑफिसर,
04-शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।





FORM 7 A

[See rule 10 (1)]

List of Contesting CandidatesElection to the House of the People from the **04-Sheohar Parliamentary Constituency.**

S.N.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
(i) Candidates of recognised National and State Political Parties.					
1	Mukesh Kumar Jha		Vill-Khaira Pahari, PO-Dostiya, PS-Purnahiya, Dist-Sheohar	Bahujan Samaj Party	ELEPHANT
2	Rama Devi		Brahmpura, Krishnatola, M.I.T, P.S-Brahmpura, Dist.- Muzaffarpur	Bharatiya Janata Party	LOTUS
3	Shamim Alam		Vill-Rampur Khas, PO+PS-Hirmma, Dist-Sheohar	Nationalist Congress Party	CLOCK
4	Syed Faisal Ali		New Patliputra, Masjid Road, P.O-Patliputra, Patna	Rashtriya Janata Dal	HURRICANE LAMP
(ii) Candidates of registered political parties (other than recognised National and State Political Parties)					
5	Anil Kumar		Vill+PO-Bhalahi, PS-Bathnaha, Dist-Sitamarhi	Jan Adhikar Party	DOLLI
6	Anand Kumar Maurya		Vill-Karamahia, PO-Padari, Tahsil-Hata, Dist-Kushinagar (UP)	Bahujan Azad Party	SLATE
7	Upendra Sahani		Vill-Pakri, PO-Rewasi, P.S-Riga, District-Sitamarhi, Pin code-843327	Rashtriya Jansambhavna Party	CAULIFLOWER

S.N.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
8	Jagdish Prasad		Vill+PO-Sawangiya, PS-Madhuban, Dist-Purvi Champaran, Pin-845412	Bajjikanchal Vikas Party	GRAPES
9	Devendra Prasad Singh		Om Braham Janki Bhawan, Vill-Mushahariya, PO+PS- Kundwa Chainpur, Dist-East Champaran, Pin-845304	All India Forward Bloc	LION
10	Nabi Hussain		Vill+PO-Jalalpur, PS-Mushari, Dist-Muzaffarpur, Bihar-843119	Bharat Prabhat Party	LUDO
11	Prabhu Narayan		Vill-Bhagwanpur Kotwa, P.O+P.S-Ghudasahan, Dist-East Champaran, Motihari	Shiv Sena	AIR CONDITIONER
12	Shyam Kumar		Vill-Dargawa, P.O-Mehsi, P.S-Mehsi, Dist-East Champaran	Rashtriya Hind Sena	HELICOPTER
(iii) Other Candidates					
13	Anil Kumar Tiwari		Vill+PO-Dulma, PS-Madhuban, Dist-Purvi Champaran, Pin-845414	Independent	CHIMNEY
14	Abul Kalam Khan		Vill-Turki Khararu, PS+Po-Minapur, Dist-Muzaffarpur	Independent	COT

S.N.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
15	Kedar Nath Prasad		Ram Bhajan Bazar, Gola Road, Muzaffarpur, Bihar-842001	Independent	GANNA KISAN
16	Raj Kumar Parsad		AT-Dhaka Chainpur, PO+PS-Dhaka, Dist-Purvi Champaran	Independent	TABLE
17	Ram Dayal Prasad		Vill-Sarsaula Khurd, PO+PS-Sheohar, Dist.-Sheohar	Independent	ALMIRAH
18	Vijay Nandan Paswan		Vill-Malkauniya, PO-Pachpakari Bazar, PS-Dhaka, Purvi Champaran	Independent	BEAD NECKLACE

Place- Motihari

Date -26-04-2019

Sd/-Illegible,
Returning Officer,
04-Sheohar Parliamentary Constituency.

प्रारूप 7 क

[नियम 10(1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

16-वैशाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी					
1	रघुवंश प्रसाद सिंह		ग्राम- पानापुर पेहमी पोस्ट- लावापुर नारायण, थाना- महनार, जिला- वैशाली (बिहार)	राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन
2	वीणा देवी (पति-दिनेश प्रसाद सिंह)		ग्राम- दाउदपुर, पोस्ट-दाउदपुर, थाना-पारु, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार, पिन- 843107	लोक जन शक्ति पार्टी	बंगला
3	शंकर महतो		ग्राम- रतवारा चंदन पो-पारु थाना- सरैया जिला- मुजफ्फरपुर राज्य- बिहार	बहु जन समाज पार्टी	हाथी
(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)					
4	अमित विक्रम		मुहल्ला- बजरंगपुरम, रोड नं०- 3, पोस्ट-भगवानपुर, थाना-सदर, जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार	जनतांत्रिक विकास पार्टी	सिलाई की मशीन
5	धनवन्ती देवी		गोबरसही, डूमरी, पंचायत- मझौली खेतल, पोस्ट- खबड़ा, थाना- सदर, जिला- मुजफ्फरपुर पिन- 843146	लोक चेतना दल	टायर
6	नरेश राम		ग्राम- रघुनाथपुर, पोस्ट-रघुनाथपुर, थाना-पारु, जिला-मुजफ्फरपुर पिन- 843126	सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट)	बैटरी टार्च

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
7	बालक नाथ सहनी		ग्राम— चकवाजो पो0— लालुछपरा, थाना— सरैया जिला— मुजफ्फरपुर	राष्ट्रीय महान् गणतन्त्र पार्टी	आदमी व पाल युक्त नौका
8	रामेश्वर साह		ग्राम—बसरा बाजार, पो0—जैतपुर, थाना—सरैया, जिला—मुजफ्फरपुर 843123	राष्ट्रीय प्रगति पार्टी	एअरकंडीस्नर
9	रेशमी देवी		ग्राम— मेथुरापुर, डाकघर— पताही, थाना— सदर जिला— मुजफ्फरपुर पिन कोड— 843113	बज्जिकांचल विकास पार्टी	अंगूर
10	विद्या भूषण		ग्राम— पोझिया(उत्तर) पो0+थाना— लालगंज जिला— वैशाली	सपाक्स पार्टी	झूला
11	सतीश कुमार मिश्रा		ग्राम— कल्यानपुर टोला— अलौला पो0+थाना+अंचल— कल्यानपुर, जिला— पूर्वी चम्पारण	राष्ट्रीय जनसम्भावना पार्टी	फूलगोभी
12	सुषमा कुमारी		ग्राम— नावानगर निजामत, पो0— करनौल, थाना— साहेबगंज, जिला— मुजफ्फरपुर, बिहार	गरीब जनशक्ति पार्टी	उपहार
(iii) अन्य अभ्यर्थी					
13	अभय कुमार शर्मा		ग्राम+डाकघर— कमलपुरा, थाना—पारु, जिला— मुजफ्फरपुर पिन— 843101	निर्दलीय	अलमारी
14	अरविन्द कुमार सिंह		ग्राम— चकसहावली, पो0—महिपुरा, भाया—जन्दाहा, जिला— वैशाली 844505	निर्दलीय	लूडो

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
15	आभा राय		ग्राम— लालुछपरा पो0— लालुछपरा, थाना— पारु जिला— मुजफ्फरपुर	निर्दलीय	सेब
16	इसमहमद उर्फ मो0 मुन्ना		ग्राम— सिसवाँ, पो0— रामपुरमीना, थाना— बरुराज, जिला— मुजफ्फरपुर, पिन— 843127	निर्दलीय	मोतियों का हार
17	पंकज कुमार		ग्राम— भटौलिया, पो0— गिद्धा थाना— सरैया, जि0— मुजफ्फरपुर	निर्दलीय	कैमरा
18	रिंकू देवी		ग्राम— भेड़ियाही सोती, पो0— हरिदासपुर थाना— कांटी जिला— मुजफ्फरपुर पिन कोड — 843109	निर्दलीय	चारपाई
19	लालजी कुमार राकेश		ग्राम— सुरतपुर विद्या पो0— बैकुण्ठपुर (बेलकुण्डा) भाया— सराय थाना— महुआ जिला— वैशाली(बिहार) पिन कोड— 844125	निर्दलीय	ऑटो—रिक्शा
20	वीणा देवी (पति—अजीत कुमार राय)		मनसुरपुर, पो0— सराय, जिला— वैशाली (बिहार)	निर्दलीय	बेबी वॉकर
21	सुधा रानी		ग्राम— परवेजाबाद बदुराही, पो0+ थाना— सोनपुर, जिला— सारण	निर्दलीय	गुब्बारा
22	सुरेश कुमार गुप्ता		ग्राम+पंचायत— भगवानपुर, पो0— भगवानपुर चट्टी, प्रखण्ड— मुशहरी, थाना— सदर, जिला— मुजफ्फरपुर, पिन— 842001 बिहार, भारत	निर्दलीय	गैस सिलेण्डर

स्थान: मुजफ्फरपुर

दिनांक: 26.04.2019







(ह०) अस्पष्ट,
निर्वाची पदाधिकारी,
16—वैशाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।









FORM 7 A








[See rule 10 (1)]

List of Contesting Candidates

Election to the House of the people from 16-Vaishali Parliamentary Constituency.

S. N.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
(I) Candidates of recognised National and state Party					
1	Raghuvansh Prasad Singh		Village-Panapur Pehmi, P.O.-Lawapur Narayan, P.S.-Mahnar, District- Vaishali (Bihar)	Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp
2	Veena Devi (W/o Dinesh Prasad Singh)		Village- Daudpur, P.O.-Daudpur, P.S.-Paroo, District-Muzaffarpur	Lok Jan Shakti Party	Bungalow
3	Shankar Mahto		Village-Ratwara Chandan P.O.- Paroo, P.S.- Saraiya, Dist.- Muzaffarpur State- Bihar	Bahujan Samaj Party	Elephant
(ii) Candidates of registered political parties (other than recognised National and State Political Parties)					
4	Amit Vikram		Mohalla-Bajrangpuram, Road No.-3, P.O.-Bhagwanpur, P.S.-Sadar, District-Muzaffarpur, Bihar	Jantantrik Vikas Party	Sewing Machine
5	Dhanvanti Devi		Gobarsahi Doomari Panchayat- Majhauli Khetal, PO-Khabra, P.S.- Sadar Muzaffarpur 843146	Lok Chetna Dal	Tyres
6	Naresh Ram		Vill.+P.O.-Raghunathpur, P.S.-Paroo, District- Muzaffarpur Pin- 843126	Socialist Unity Centre of India (Communist)	Battery Torch
7	Balak Nath Sahani		At- chakbajo Post- Lalu Chhapra Vaya- saraiya Dist.-Muzaffarpur	Rashtriya Mahan Gantantra Party	Boat with Man and Sail

S. N.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
8	Rameshwar Sah		At- Basra Bazar, Po- Jaintpur, P.S.-saraiya, Dist.- Muzaffarpur Pin- 843123	Rashtriya Pragati Party	Air Conditioner
9	Reshami Devi		Village- Methurapur, P.O.- Patahi, P.S.- Sadar, Dist.- Muzaffarpur Pin- 843113	Bajjikanchal Vikash Party	Grapes
10	Vidya Bhushan		At.- Pojhiya (North) P.O.+P.S.- Lalganj Dist.- Vaishali	Sapaks Party	Swing
11	Satish Kumar Mishra		Village- Kalyanpur Tola- Alaula P.S.+Anchal- Kalyanpur Dist.- East Champaran	Rashtriya Jansambhav na Party	Cauliflower
12	Sushma Kumari		Village- Navanagar Nizamat P.O.- Karnol P.S.- Sahebganj, Dist.- Muzaffarpur	Garib Janshakti Party	Gift Pack
(iii) Other Candidates.					
13	Abhay Kumar Sharma		Village+P.O.- Kamalpur, P.S.- Paroo, Dist.- Muzaffarpur Pin- 843101	Independent	Almirah
14	Arvind Kumar Singh		At.- Chak Sahauli P.O.- Mahipura Via- Jandaha Dist.- Vaishali Pin- 844505	Independent	Ludo
15	Abha Rai		Village- Lalu Chhapra P.O.- Lalu Chhapra P.S.- Paroo Dist.- Muzaffarpur	Independent	Apple

S. N.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
16	Ismohamad alias Md. Munna		Village- Siswa P.O.- Rampurmina P.S.-Baruraj Dist.- Muzaffarpur	Independent	Bead Necklace
17	Pankaj Kumar		Village- Bhatauliya P.O.- Giddha P.S.- Saraiya Dist.- Muzaffarpur	Independent	Camera
18	Rinkoo Devi		Village- Bheriyahi Soti P.O.- Haridaspur P.S.- Kanti Dist.- Muzaffarpur Pin- 843109	Independent	Cot
19	Laljee Kumar Rakesh		Village- Suratpur Vidya P.O.- Baikunthpur (Belkunda) Via- Sarai, PS- Mahua, District- Vaishali (Bihar), Pin-844125	Independent	Auto-Rickshaw
20	Beena Devi (W/o Ajit Kumar Ray)		Mansurpur, Post-Sarai, PS-Sarai, District- Vaishali (Bihar)	Independent	Baby Walker
21	Sudha Rani		Village-Parvejabad Badurahi, PO+PS- Sonpur, District- Saran	Independent	Balloon
22	Suresh Kumar Gupta		Village+Panchayat- Bhagwanpur, PO- Bhagwanpur Chatti, Block-Mushahari PS-Sadar, District- Muzaffarpur, Pin-842001, Bihar Bharat	Independent	Gas Cylinder

Place- MUZAFFARPUR.

Date -26-04-2019

Sd/-Illegible,
Returning Officer,
16-VAISHALI Parliamentary Constituency.

प्रारूप 7 क

[नियम 10(1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

17-गोपालगंज (अ0जा0) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी					
1	डा0 आलोक कुमार सुमन		ग्राम-तुरकाहाँ, पो0+थाना+ जिला- गोपालगंज	जनता दल (यूनायटेड)	तीर
2	कुणाल किशोर विवेक		ग्राम-कुमना, पो0-कुमना थाना-कोपा, जिला-सारण	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
3	सुरेन्द्र राम		ग्राम-बखरौर जही, पो0-कहला, जिला-गोपालगंज	राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन
(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)					
4	अजय पासवान		ग्राम+पो0- हकाम, थाना-महादेवा ओ0पी0, जिला-सिवान	शिवसेना	मोतियों का हार
5	ओम प्रकाश माँझी		ग्राम+पो0 -बडरम, थाना-हुसैनगंज, जिला-सिवान	जय प्रकाश जनता दल	डीजल पम्प
(iii) अन्य अभ्यर्थी					
6	अनिल कुमार माँझी		ग्राम-सिपाया खास, पो0+ थाना- विश्वम्भरपुर, जिला-गोपालगंज	निर्दलीय	चारपाई
7	उमा शंकर खरवार		म0 नं0- 829 आवास विकास कॉलोनी, महादेव झारखंडी, टु0नं0 1, पो0- कूड़ाघाट गोरखपुर (उ0प्र0)	निर्दलीय	ट्रैक्टर चलाता किसान

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
8	गया राम		ग्राम—बरगछिया, पो0—रामचन्द्रपुर थाना—थावे, जिला—गोपालगंज	निर्दलीय	सेब
9	दिलीप कुमार मांझी		ग्राम—देवपाली, पो0—चकरा थाना—सिवान (मु0), जिला—सिवान	निर्दलीय	हैलीकॉप्टर
10	दीनानाथ मांझी		ग्राम—बनकटा पो0—ढेबवाँ थाना—गोपालपुर, जिला—गोपालगंज	निर्दलीय	फूलगोभी
11	राम कुमार मांझी		ग्राम—जगरनाथा, पो0+थाना—माँझागढ़, जिला—गोपालगंज 841427	निर्दलीय	चिमनी
12	सुरेन्द्र राम		सा0—जमसड़ी, पो0—जमसड़, थाना— उचकागाँव जिला—गोपालगंज	निर्दलीय	एअरकंडीस्नर
13	सूरज कुमार		थावे रोड, वार्ड नं0 22, पो0+थाना+ जिला— गोपालगंज, पिन कोड— 841428	निर्दलीय	ईंटें

स्थान:

दिनांक:








(ह0) अस्पष्ट,
निर्वाची पदाधिकारी,
17—गोपालगंज (अ0जा0) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।

FORM 7 A

[See rule 10 (1)]

List of Contesting Candidates

Election to the House of the People from the 17-Gopalganj (S.C) Parliamentary Constituency.

S. N.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
(i) Candidates of recognised National and State Political Parties					
1	Dr. Alok Kumar Suman		Vill-Turkaha Post+PS+Dist- Gopalganj	Janata Dal (United)	Arrow
2	Kunal Kishor Vivek		Vill-Kumana, Post- Kumna PS-Kopa, Dist-Saran	Bahujan Samaj Party	Elephant
3	Surendra Ram		Vill-Bakharaur Jaddi, Post-Kahla Dist- Gopalganj	Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp
(ii) Candidates of registered Political Parties (Other than recognised National and State Political Parties)					
4	Ajay Paswan		Vill+Post-Hakam PS-Mahadeva O.P, Dist-Siwan	Shiv Sena	Bead Necklace
5	Om Prakash Manjhi		Vill+Post-Badram, PS-Hussainganj, Dist-Siwan	Jai Prakash Janata Dal	Diesel Pump
(iii) Other Candidates					
6	Anil Kumar Manjhi		Vill-Sipaya Khas Post+ P.S - Bishwambharpur Dist-Gopalganj	Independent	Cot
7	Uma Shankar Kharawar		House No. 829 Awash Vikash Colony, Mahadev Jharkhandi, Tu. No. 1 Kudaghat Gorakhpur (UP)	Independent	Tractor Chalata Kisan

S. N.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
8	Gaya Ram		Vill-Bargachhiya Post- Ramchandrapur PS-Thawe, Dist- Gopalganj	Independent	Apple
9	Dilip Kumar Manjhi		Vill-Devpali, Post- Chakra PS-Siwan (Muf.), Dist-Siwan	Independent	Helicopter
10	Dinanath Manjhi		Vill-Banakata, Post- Dhebwa PS- Gopalpur, Dist- Gopalganj	Independent	Cauliflower
11	Ram Kumar Manjhi		Vill-Jagarnatha Post+PS- Manjhagarh Dist-Gopalganj, 841427	Independent	Chimney
12	Surendra Ram		Vill-Jamshari, Post- Jamsar PS-Uchkagaon, Dist-Gopalganj	Independent	Air Conditioner
13	Suraj Kumar		Thawe Road Ward no. 22, Post+PS + Dist. Gopalganj, Pin code 841428	Independent	Bricks

Place-
Date -

Sd/-Illegible,
Returning Officer,
17-Gopalganj (S.C) Parliamentary Constituency.

प्रारूप 7 क

[नियम 10(1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

18-सिवान संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी					
1.	कविता सिंह		ग्राम-नन्दा मुड़ा पो0 चैनपुर, जिला सिवान	जनता दल (यूनायटेड)	तीर
2.	बालमिकी प्रसाद गुप्ता		ग्रा0+पो0-लकड़ी दरगाह, जि0-सिवान	बहु जन समाज पार्टी	हाथी
3.	हेना शहाब		ग्राम+पो0-प्रतापपुर , थाना-हुसैनगंज, जिला-सीवान	राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन
(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)					
4.	अमरनाथ यादव		ग्राम-कबीलपुरा पो0 सहली जि0 सिवान	कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट- लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)	तीन सितारों वाला झंडा
5.	नारद पंडीत		ग्राम-हसनपुरवा, पो0-बाकरगंज थाना-हुसैनगंज जिला-सिवान	भारतीय समता समाज पार्टी	एअरकंडीस्नर
6.	परमानन्द गोंड		ग्रा0+पो0= लेभरी पिन कोड 841239 थाना-मैरवा जिला सिवान	स्वतंत्र समाज पार्टी	प्रैशर कुकर
7.	बिजय बहादुर सिंह		ग्राम-बभनौली, पो0-लंगरपुरा, मैरवा, सिवान	राष्ट्रीय सहयोग पार्टी	हेलमेट

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
8.	रोहित कुमार यादव		ग्राम+पो0-शाहपुर, थाना-नवतन, जिला-सिवान	संयुक्त विकास पार्टी	अनानास
9.	शबाना		1013/1-A प्रशादी महलला, ग्राम-उसमानपुर दिलली	जय प्रकाश जनता दल	डीजल पम्प
10.	सुधीर कुमार सिंह		C/O राजेन्द्र प्रसाद, बड़ी मस्जिद के पीछे, सिवान, पिन-841226	शिवसेना	मोतियों का हार
(iii) अन्य अभ्यर्थी					
11.	अनिल कुमार वर्मा		कनिष्क विहार कालोनी पो0 मोहदीपुर	निर्दलीय	गैस सिलेण्डर
12.	अभिषेक कुमार उर्फ रिकु जी		मुहल्ला-अग्रवाल टोली, पो0-सिवान, जिला-सिवान-841226	निर्दलीय	चारपाई
13.	अमरजीत प्रसाद		परशुरामपुर टोले लोहगाजर पो0-छितनपुर, सिवान	निर्दलीय	गुबारा
14.	उपेन्द्र कुमार गिरि		ग्राम+पो0 भरतपुरा जी0 सिवान	निर्दलीय	बेबी वॉकर
15.	जय प्रकाश प्रसाद उर्फ जे0पी0भाई		ग्राम+पो0+ थाना- जामो बाजार	निर्दलीय	सेब

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवृत्ति प्रतीक
1	2	3	4	5	6
16.	देवाकान्त मिश्रा उर्फ मुन्ना भैया		मो0 लक्ष्मी नगर, राम नगर, वार्ड सं0-05, पो0+जि0-सिवान	निर्दलीय	चिमनी
17.	माधुरी पाण्डेय		मो0 फतेपुर पो0+अंचल+ जिला-सीवान- 841226	निर्दलीय	ऑटो-रिक्शा
18.	संजय प्रजापती		ग्रा0-भिटौली, पो0-कुम्हटी, थाना-दरौली, जि0-सिवान	निर्दलीय	रोड रोलर
19.	सत्येन्द्र कुशवाहा		ग्रा0-विजय हाता, पो0 गोशाला रोड सिवान जिला सिवान	निर्दलीय	अलमारी

स्थान: सिवान।

दिनांक: 26.04.2019

(हो) अस्पष्ट,
रिटर्निंग ऑफिसर,
18-सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।

FORM 7 A

[See rule 10 (1)]

List of Contesting CandidatesElection to the House of the People from the **18-Siwan Parliamentary Constituency**.

S. N.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
(i) Candidates of recognised National and State Political Parties.					
1	Kavita Singh		Vill- Nanda Muda, P.O-Chainpur, Dist- Siwan	Janata Dal (United)	Arrow
2	Balmiki Prasad Gupta		Vill- Lakri Dargah, Dist-Siwan	Bahujan Samaj Party	Elephant
3	Hena Shahab		Vill+PO- Pratappur, P.S.- Hussainganj, Dist-Siwan	Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp
(ii) Candidates of registered political parties (other than recognised National and State Political Parties)					
4	Amar Nath Yadav		Vill- Kabilpura, P.O- Sahuli Dist- Siwan	Communist Party of India (Marxist- Leninist) (Liberation)	Flag with Three Stars
5	Narad Pandit		Vill-Hasanpurwa, P.O- Wakarganj, P.S.- Hussainganj, Dist- Siwan.	Bharatiya Samta Samaj Party	Air Conditioner
6	Parmanand Gond		Vill+PO- Levvari, Pincode- 841239 P.S- Mairwa, Dist- Siwan	Swatantra Samaj Party	Pressure Cooker

S. N.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
7	Bijay bahadur Singh		Vill- Babhanauli P.O- Langarpura Mairwa Siwan	Rashtriya Sahyog Party	Helmet
8	Rohit Kumar Yadav		Vill+P.O- Shahpur, P.S- Nautan Dist-Siwan	Sanyukt Vikas Party	Pineapple
9	Shabana		1013/I-A Prashadi Mahalala, Vill-Usmanpur, Dilli	Jai Prakash Janata Dal	Diesel Pump
10	Sudhir Kuamr Singh		C/o Rajendra prasad, Badi Masjid ke piche, Siwan pincode- 841226	Shiv Sena	Bead Necklace
(iii) Other Candidates					
11	Anil Kumar Verma		Kanisk Vihar Colony, P.O.-Mohadipur	Independent	Gas Cylinder
12	Abhishek Kumar Alias Rinku Ji		Muhalla-Agrwal Toli, P.O-Siwan, Dist- Siwan- 841226	Independent	Cot
13	Amarjit Prasad		Parasurampur Tole Lohgajar, P.O-Chhitanpur, Siwan	Independent	Balloon

S. N.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
14	Upendra Kumar Giri		Vill+ P.O- Bharatpura G, Siwan	Independent	Baby Walker
15	Jai Prakash Prasad Alias J.P.Bhai		Vill+PO+P.S- Jamo Bazar,	Independent	Apple
16	Deva Kant Mishra Alias Munna Bhaiya		Mo Laxminagar, Ramnagar Ward No-05, P.O+Dist-Siwan	Independent	Chimney
17	Madhuri Pandey		Mo- Pathepur, P.O+Anchal+ Dist-Siwan 841226	Independent	Auto-Rickshaw
18	Sanjay Prajapatee		Vill- Bhitauli P.O- Kumhati P.S- Darauli Dist- Siwan	Independent	Road Roller
19	Satyendra Kushwaha		Vill- Vijayhata Gaushala Road, Siwan, Dist- Siwan	Independent	Almirah

Place- Siwan

Date – 26-04-2019

Sd/-Illegible,
Returning Officer,
 18-Siwan, Parliamentary Constituency.

प्रारूप 7 क

[नियम 10(1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

19-महराजगंज, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी					
1	अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव		20, मित्र मंडल कॉलोनी, साकेत बिहार, अनीसाबाद, अंचल-फुलवारी शरीफ, जिला-पटना	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
2	जनार्दन सिंह 'सिग्रीवाल'		सा०-मिश्रवलिया टोला, पो०+थाना-जलालपुर, जिला-सारण।	भारतीय जनता पार्टी	कमल
3	रणधीर कुमार सिंह		ग्राम+पो०+थाना-मशरक, जिला-सारण	राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन
(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)					
4	अरविन्द कुमार शर्मा		सा०-मांझी दक्षिण टोला, मांझी, सारण	भारतीय जन क्रान्ति दल (डेमोक्रेटिक)	टोप
5	अली अजहर अंसारी		ग्राम-गोपालपुर, पो०-मुस्तफाबाद, थाना-गोरेयाकोठी, जिला-सिवान।	मानववादी जनता पार्टी	मोतियों का हार
6	डा० गोपाल प्रसाद		ग्राम-सहसराव, थाना-भगवानपुर हाट, जिला-सीवान	भारतीय न्यू संस्कार क्रांतिकारी पार्टी	कड़ाही
7	सुभाष सिंह		ग्राम-डुमाईगढ़ (नवका टोला), थाना-मांझी, पो०-डुमाईगढ़, जिला-सारण।	जागो हिन्दुस्तान पार्टी	माईक

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवृत्ति प्रतीक
1	2	3	4	5	6
(iii) अन्य अभ्यर्थी					
8	मेनका रमन		ग्राम+पो०-पड़ौली, थाना-बसंतपुर, जिला-सिवान	निर्दलीय	लैटर बाक्स
9	राजेन्द्र कुमार		सा०-शिवाजी नगर, गली नं०-03, फतेहपुर सिवान, थाना-सिवान नगर, जिला-सिवान	निर्दलीय	ऑटो-रिक्शा
10	डा० श्री भगवान सिंह		ग्राम+पो०-बंगरा, थाना-महराजगंज, जिला-सीवान	निर्दलीय	सीटी
11	एम०के० सिंह राठौड़		स्टडी प्वाइंट, सलेमपुर, छपरा, थाना-छपरा नगर।	निर्दलीय	फूलगोभी

स्थान: छपरा।

दिनांक: 26.04.2019

(ह०) अस्पष्ट,
रिटर्निंग ऑफिसर,
19-महराजगंज, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।





Form 7A

[See rule 10 (1)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Election to the House of the People from the 19-Maharajganj Parliamentary Constituency.

Sl. No.	Name of Candidate	Candidate Photo	Address of Candidates	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
(i) Candidates of recognised National and State Political Parties					
1	Anirudh Prasad alias Sadhu Yadav		At-20, Mitra Mandal Colony, Saket Bihar, Anisabad, Circle-Phulwari Sharif, District-Patna	Bahujan Samaj Party	Elephant
2	Janardan Singh 'Sigriwal'		At-Mishrawalia Tola, PO+PS.-Jalalpur, District-Saran	Bharatiya Janata Party	Lotus
3	Randhir Kumar Singh		Vill+PO+PS- Masharak, District-Saran	Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp
(ii) Candidates of registered political parties (other than recognised National and State Political Parties).					
4	Aravind Kumar Sharma		At-Manjhi, Dakshin Tola, Manjhi, Saran	Bharatiya Jan Kranti Dal (Democratic)	Hat
5	Ali Azhar Ansari		Vill-Gopalpur, PO.-Mustafabad, PS.-Goryakothi, District-Siwan	Maanavvaadi Janta Party	Bead Necklace
6	Dr. Gopal Prasad		Vill-Sahsarawn, PS.-Bhagwanpur Hat, District-Siwan	Bhartiya New Sanskar Krantikari Party	Pan
7	Subash Singh		Vill-Dumaigadh (Nawaka Tola), PS.-Manjhi, PO-Dumaigadh, District-Saran	Jago Hindustan Party	Mike

Sl. No.	Name of Candidate	Candidate Photo	Address of Candidates	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
(iii) Other Candidates					
8	Menka Raman		Vill+PO-Padauli, PS.-Basantpur, District-Siwan	Independent	Letter Box
9	Rajendra Kumar		AT-Shivajee Nagar, Gali no.- 03, Fatehpur, Siwan, PS-Siwan Nagar, District-Siwan	Independent	Auto-Rickshaw
10	Dr. Shree Bhagwan Singh		Vill+PO-Bangra, PS.-Maharajganj, District-Siwan	Independent	Whistle
11	M.K. Singh Rathour		AT-Study Point, Salempur, Chapra, PS.-Chapra Town	Independent	Cauliflower

Place- CHAPRA

Date -26-04-2019

Sd/-Illegible,
Returning Officer
19-Maharajganj Parliamentary Constituency .

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 589-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>